

Roll No. ....

**D-132**

**M. Com. (Fourth Semester) (Main/ATKT)  
EXAMINATION, 2020**

**(Optional-Specialization)**

**[Optional Group (D) : Taxation and Accounting]**

Paper-D-IV

ACCOUNTING METHODS

*Time : Three Hours ]*

*[ Maximum Marks : 80*

**नोट :** निर्देशानुसार सभी खण्डों के उत्तर दीजिए।

Attempt all Sections as directed.

**खण्ड-अ**

प्रत्येक 1

**(Section—A)**

**वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय प्रश्न**

**(Objective/Multiple Choice Questions)**

**नोट :** सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Attempt all questions.

सही उत्तर का चयन कीजिए :

Choose the correct answer :

1. पुस्तपालन की एकल प्रविष्टि प्रणाली का आशय है :
  - (अ) प्रत्येक व्यवहार की केवल एक प्रविष्टि
  - (ब) अपूर्ण द्वि-प्रविष्टि प्रणाली
  - (स) दोनों प्रविष्टियाँ केवल एक खाते में
  - (द) इनमें से कोई नहीं

Meaning of single entry system of book-keeping is :

- (a) Only one entry for each transaction
- (b) Incomplete double entry system
- (c) Both entries in one account only
- (d) None of these

2. एकल प्रविष्टि प्रणाली के अन्तर्गत लेखे रखे जाते हैं :

- (अ) नाममात्र एवं वास्तविक लेखे
- (ब) नाममात्र एवं व्यक्तिगत लेखे
- (स) रोकड़ पुस्तक एवं व्यक्तिगत लेखे
- (द) सभी प्रकार के लेखे

Accounts are maintained in single entry system :

- (a) Nominal and Real Account
- (b) Nominal and Personal Account
- (c) Cash Book and Personal Account
- (d) All Accounts

3. अवस्था-विवरण तैयार किया जाता है, गणना करने के लिए :

- (अ) आर्थिक स्थिति की
- (ब) दायित्वों की
- (स) सम्पत्तियों की
- (द) पूँजी की

The statement of affairs is prepared for calculation of :

- (a) Economic Condition
- (b) Liabilities
- (c) Assets
- (d) Capital

[ 3 ]

D-132

4. वर्ष के प्रारम्भ में पूँजी ₹ 4,00,000 है। वर्ष में सम्पत्तियों में ₹ 2,00,000 की वृद्धि हुई तथा दायित्व में ₹ 25,000 की कमी हुई है। लाभ या हानि की गणना कीजिए :

- (अ) ₹ 2,25,000 लाभ
- (ब) ₹ 5,75,500 हानि
- (स) ₹ 1,75,000 लाभ
- (द) ₹ 2,25,000 हानि

The capital at the beginning of the year is ₹ 4,00,000. The assets are increased to ₹ 2,00,000 and liabilities are reduced by ₹ 25,000 in the current year. Calculate the profit or loss :

- (a) ₹ 2,25,000 profit
- (b) ₹ 5,75,500 loss
- (c) ₹ 1,75,000 profit
- (d) ₹ 2,25,000 loss

5. सम्पत्तियाँ ₹ 5,90,000 एवं दायित्व ₹ 4,65,000 है। अंतर की राशि होगी :

- (अ) पूँजी
- (ब) लाभ
- (स) लेनदार
- (द) इनमें से कोई नहीं

Assets ₹ 5,90,000 and Liabilities ₹ 4,65,000. The difference is :

- (a) Capital
- (b) Profit
- (c) Creditors
- (d) None of these

(B-20) P. T. O.

[ 4 ]

D-132

6. अन्तर्विभागीय व्यवहार में वस्तुओं का हस्तांतरण, लागत मूल्य पर होने पर इसका उल्लेख होगा, हस्तांतरणकर्ता विभाग के :

- (अ) व्यापार लेखा के समाकलन पक्ष में
- (ब) व्यापार लेखा के विकलन पक्ष में
- (स) लाभ-हानि लेखा के विकलन पक्ष में
- (द) लाभ-हानि लेखा के समाकलन पक्ष में

The entry of transfer of goods for inter-departmental transactions will be recorded in the department of transferor :

- (a) In the credit side of the Trading A/c
- (b) In the debit side of the Trading A/c
- (c) In the debit side of the Profit & Loss A/c
- (d) In the credit side of the Profit & Loss A/c

7. जो व्यय विभागीय नहीं हैं उन्हें :

- (अ) विभागों में बिक्री के अनुपात में लिखा जाता है।
- (ब) सामान्य लाभ-हानि लेखा में ले जाया जाता है।
- (स) विभागों में सम्पत्तियों के आधार पर लिखा जाता है जो उनमें लगी हैं।
- (द) इनमें से कोई नहीं

The expenses which are not departmental :

- (a) are charged to departmental in sales ratio.
- (b) are charged to general Profit & Loss Account.
- (c) are charged to departments in the ratio of Assets employed thereto.
- (d) None of these

8. अंतिम स्कन्ध की राशि ज्ञात करने के लिए बनाना होता है :

- (अ) मुख्य कार्यालय का स्कन्ध खाता

(B-20)

- (ब) शाखा खाता  
 (स) स्मारक स्कन्ध खाता  
 (द) मुख्य कार्यालय का खाता

In order to find out the amount of closing stock we have to prepare :

- (a) Head Office Stock A/c  
 (b) Branch Account  
 (c) Memorandum Stock A/c  
 (d) Head Office A/c
9. विदेशी शाखा की दशा में मुख्य कार्यालय और शाखा द्वारा लेखे रखे जाते हैं :
- (अ) अपने-अपने देश की मुद्रा में  
 (ब) विदेशी मुद्रा में  
 (स) मुख्य कार्यालय की मुद्रा में  
 (द) शाखा कार्यालय के देश की मुद्रा में

In case of foreign branch the account in Head Office and Branch Office are kept :

- (a) In their own currency  
 (b) In foreign country's currency  
 (c) In the made of head office currency  
 (d) In the made of branch office country's currency
10. विदेशी शाखा की दशा में लेनदारों की राशि बदलती जाती है :
- (अ) प्रारम्भिक दर पर  
 (ब) अंतिम दर पर  
 (स) औसत दर पर  
 (द) इनमें से कोई नहीं

In case of foreign branch the amount of creditors will be converted in :

- (a) Opening rate  
 (b) Closing rate  
 (c) Average rate  
 (d) None of these

11. बिलासपुर शाखा ने प्रधान कार्यालय द्वारा बिलासपुर में क्रय किये गये ₹ 25,500 के फर्नीचर का भुगतान किया। इन व्यवहार की प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लेखा करने हेतु प्रविष्टि होगी :

- (अ) रायपुर शाखा लेखा विकलित  
 फर्नीचर लेखा से  
 (ब) फर्नीचर लेखा विकलित  
 बैंक लेखा से  
 (स) फर्नीचर लेखा विकलित  
 बिलासपुर शाखा लेखा से  
 (द) इनमें से कोई नहीं

Bilaspur Branch paid ₹ 25,500 for furniture purchased by the Head Office in Bilaspur. To record this transaction in the books of Head Office the entry would be :

- (a) Raipur Branch A/c Dr.  
 To Furniture A/c  
 (b) Furniture A/c Dr.  
 To Bank A/c  
 (c) Furniture A/c Dr.  
 To Bilaspur Branch A/c  
 (d) None of these

12. यदि शाखा को लागत +  $33\frac{1}{3}\%$  जोड़कर ₹ 2,00,000 के बीजक

मूल्य का माल भेजा गया है, तो लागत मूल्य होगा :

- (अ) ₹ 1,87,500  
 (ब) ₹ 1,80,000  
 (स) ₹ 1,50,000  
 (द) ₹ 1,33,335

If the Head Office has despatched goods on invoice price at the rate of cost +  $33\frac{1}{3}\%$  of ₹ 2,00,000. The cost price of goods will be :

- (a) ₹ 1,87,500  
 (b) ₹ 1,80,000  
 (c) ₹ 1,50,000  
 (d) ₹ 1,33,335

13. विक्रय मूल्य पर 25% लाभ का अर्थ है लागत पर :

- (अ)  $33\frac{1}{3}\%$   
 (ब) 25%  
 (स)  $16\frac{2}{3}\%$   
 (द) 10%

The meaning of 25% profit on sales in cost is :

- (a)  $33\frac{1}{3}\%$   
 (b) 25%  
 (c)  $16\frac{2}{3}\%$   
 (d) 10%

निम्नांकित के उत्तर 'हाँ' या 'नहीं' में दीजिए :

Answer the following in 'Yes' or 'No' :

14. अवस्था विवरण तैयार किया जाता है—आर्थिक स्थिति की गणना के लिए।

The statement of affairs is prepared for calculation of economic condition.

15. प्रेसीडेन्सी टाउन्स दिवाला अधिनियम दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और चेन्नई में लागू होता है।

Presidency Towns Insolvency Act applies in Delhi, Calcutta, Mumbai and Chennai.

16. यदि कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख न हो तो वेतन या मजदूरी की राशि, किसी भी दिवाला अधिनियम में पूर्वाधिकारी नहीं मानी जाती है।

If number of employees are not given then the amount of salaries or wages are not treated as preferential in any of the Insolvency Act.

17. दिवालिया फर्म द्वारा किसी साझेदार की व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रतिभूति पर लिया गया ऋण फर्म के अवस्था विवरण में सूची (A) में अरक्षित लेनदार के रूप में दर्शाया जायेगा।

Loan taken over by an insolvent firm, on the security of personal assets of partner is shown in list 'A' as unsecured creditor in the firm's statement of affairs.

18. माल के आंतरिक विभागों में हस्तांतरण के अप्राप्य लाभ के लिए स्कन्ध संचय को सामान्य लाभ-हानि लेखा में ले जाया जाता है।

Stock reserve for unrealized profits for inter-departmental transfer of goods is charged to general Profit & Loss Account.

19. गत वर्ष के शेष माल का उल्लेख आभासी वर्ष में शाखा लेखा के विकलन (नामे) पक्ष में शाखाओं को प्रेषित माल लेखा के रूप में होगा।

The Balance of the last year goods will be on the debt side of the coming year of the branch account in shape of goods sent to branches.

20. मुख्य कार्यालय द्वारा स्वतंत्र शाखा की परीक्षा सूची की सम्पत्ति पक्ष के मदों के समामेलन में शाखा लेखा विकलित (नामे) होगा।

Incorporation of trial balance of the independent branch will be debited in the Branch Account by the Head Office.

#### खण्ड—ब

#### (Section—B)

#### अति लघु उत्तरीय प्रश्न

#### (Very Short Answer Type Questions)

- नोट : सभी आठ प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।

Write answer of all *eight* questions in two or three sentences. Each question carries 2 marks.

1. 'देनदार लेखा' एवं 'लेनदार लेखा' में क्या-क्या मदें लिखी जाती हैं ?  
Write the items of 'Debtors Account' and 'Creditors Account'.
2. वर्ष के प्रारम्भ में अदत्त किराया ₹ 5,750 तथा वर्ष के अंत में अदत्त किराया ₹ 8,750 है। इसका लाभ पर प्रभाव बताइए।  
In the beginning of the year outstanding rent is ₹ 5,750 and in the year ending outstanding rent is ₹ 8,750. What be the effect on profit ?
3. हीनता लेखा का एक प्रारूप तैयार कीजिए।  
Prepare a pro forma of Deficiency Account.

4. 'शाखा लेखा' से आप क्या समझते हैं ?

What do you understand by 'Branch Account' ?

5. मुख्य कार्यालय ने शाखा को लागत + 25% पर माल बेचा। यदि लागत मूल्य ₹ 20,000 हो, तो बीजक मूल्य क्या होगा ?

The Head Office supplied goods to branch at the rate of cost + 25%. If the cost price is ₹ 20,000, calculate the invoice price.

6. मानव संसाधन लेखांकन क्या है ?

What is Human Resources Accounting ?

7. अंतर्विभागीय व्यवहार क्या है ?

What is Inter-departmental transaction ?

8. 'अवस्था-विवरण' से आप क्या समझते हैं ?

What is 'Statement of Affairs' ?

#### खण्ड—स

#### (Section—C)

#### लघु उत्तरीय प्रश्न

#### (Short Answer Type Questions)

- नोट : सभी आठ प्रश्नों के उत्तर 75 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।

Attempt all the *eight* questions in about 75 words. Each question carries 3 marks.

1. एकल प्रविष्टि प्रणाली एवं दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का अन्तर स्पष्ट कीजिए।  
Differentiate between Single Entry System and Double Entry System.
2. प्रारम्भिक एवं अंतिम स्कन्ध की गणना कीजिए।  
Explain the calculation of opening and closing stock.

3. अवस्था-विवरण का प्रारूप काल्पनिक संख्याओं के आधार पर तैयार कीजिए।

Prepare a pro forma of statement of affairs giving imaginary figure.

4. 'शाखा समायोजन खाता' से आप क्या समझते हैं ?  
What do you understand by the term 'Branch Adjustment Account' ?
5. पट्टा एवं अधिकार शुल्क में अन्तर स्पष्ट कीजिए।  
Distinguish between Lease and Royalty.
6. मूल्य स्तर में परिवर्तन के लिए लेखांकन के लाभों का वर्णन कीजिए।  
Discuss the merits of accounting for price level changes.
7. पूर्वप्रापित विपत्रों पर सम्भाव्य दायित्व का उल्लेख अवस्था विवरण एवं हीनता लेखा में किस पक्ष में होगा ?  
In which side contingent liability of bills discounted is shown is Statement of Affairs and Deficiency Account ?
8. वर्ष के अंत की पूँजी की गणना कीजिए :

|                                 | ₹         |
|---------------------------------|-----------|
| (i) चालू वर्ष की अतिरिक्त पूँजी | 1,25,000  |
| (ii) चालू वर्ष में आहरण         | 50,000    |
| (iii) वर्ष के प्रारम्भ की पूँजी | 12,15,000 |
| (iv) चालू वर्ष में अर्जित लाभ   | 60,000    |

Calculate the capital at the end of year :

|  | ₹         |
|--|-----------|
| (i) Additional Capital in the current year | 1,25,000  |
| (ii) Drawing of Current Year               | 50,000    |
| (iii) Capital at the beginning of year     | 12,15,000 |
| (iv) Profit earned during the year         | 60,000    |

## खण्ड—द

## (Section—D)

## दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

## (Long Answer Type Questions)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।

Attempt all questions in about 150 words. Each question carries 5 marks.

1. "अपूर्ण लेखे न ही वैज्ञानिक हैं न ही विश्वसनीय।" स्पष्ट कीजिए।  
"Incomplete records are neither scientific, nor faithful." Explain.

## अथवा

## (Or)

एक व्यापारी, जो पूर्ण पुस्तकें नहीं रखता, आपसे 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अंतिम खाते तैयार करने को कहता है। आपने किसी प्रकार निम्नलिखित सूचनाएँ प्राप्त कीं :

- (i) रोकड़ पुस्तक का सारांश :

|                                 | ₹        |
|---------------------------------|----------|
| 1 अप्रैल, 2019 को हस्तस्थ रोकड़ | 25,850   |
| देनदार से प्राप्त               | 2,10,250 |
| व्यक्तिगत आहरण                  | 15,000   |
| लेनदार को भुगतान                | 1,62,000 |
| वेतन                            | 12,500   |
| किराया                          | 6,000    |
| विद्युत व्यय                    | 1,750    |
| लेखन सामग्री एवं छपाई           | 1,250    |
| विज्ञापन                        | 2,250    |

[ 13 ]

D-132

(ii) उसकी अन्य सम्पत्तियाँ एवं दायित्व :

|                     | 31 मार्च,<br>2019<br>(₹) | 31 मार्च,<br>2020<br>(₹) |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| अदत्त विज्ञापन व्यय | —                        | 1,250                    |
| अदत्त विद्युत व्यय  | 100                      | 75                       |
| अदत्त किराया        | 500                      | 500                      |
| लेनदार उत्तमर्ण     | 7,000                    | 17,500                   |
| देनदार              | 16,750                   | 25,500                   |

31 मार्च, 2020 को स्कन्ध का मूल्य ₹ 22,500 है। परन्तु व्यापारी के पास प्रारम्भिक स्कन्ध के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। वह आपको सूचना देता है कि उसने अपना माल लागत मूल्य पर  $33\frac{1}{3}\%$  सहित बेचा है।

आप 31 मार्च, 2020 को देनदार लेखा, लेनदार लेखा तथा प्रारम्भिक पूँजी की गणना कीजिए।

A trader who has not kept a complete set of books, asks you to prepare his final accounts for the year ended 31st March, 2020. You are however, able to obtain the following informations :

(i) Summary of cash book :

|                                    | ₹        |
|------------------------------------|----------|
| Cash in hand as on 1st April, 2019 | 25,850   |
| Receipts from debtors              | 2,10,250 |
| Personal Drawing                   | 15,000   |
| Payment to Creditors               | 1,62,000 |

(B-20) P. T. O.

[ 14 ]

D-132

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Salaries                | 12,500 |
| Rent                    | 6,000  |
| Electricity Charges     | 1,750  |
| Printing and Stationery | 1,250  |
| Advertising             | 2,250  |

(ii) His other assets and liabilities were :

|                                  | As on<br>31 March,<br>2019 (₹) | As on<br>31 March,<br>2020 (₹) |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Advertising expenses outstanding | —                              | 1,250                          |
| Electricity charges outstanding  | 100                            | 75                             |
| Rent outstanding                 | 500                            | 500                            |
| Creditors                        | 7,000                          | 17,500                         |
| Debtors                          | 16,750                         | 25,500                         |

The stock on 31st March, 2020 was valued at ₹ 22,500; but the trader has no record of the opening stock. He informs you, however, that he invariably sold his goods at cost plus  $33\frac{1}{3}\%$ .

Calculate (i) Debtors Account, (ii) Creditors Account, (iii) Opening Capital.

2. विभागीय लेखों के उद्देश्य एवं लाभों का वर्णन कीजिए।

Describe the objects and advantages of Departmental Accounts.

(B-20)

[ 15 ]

D-132

अथवा

(Or)

बिलासपुर के एक चावल मिल की एक विक्रय शाखा दिल्ली में है जहाँ वस्तुएँ लागत +  $33\frac{1}{3}\%$  मूल्य पर भेजी जाती हैं। ऐसी व्यवस्था है जिससे शाखा प्रतिदिन प्राप्त चेक राशि प्रधान कार्यालय को भेज देती है। शाखा के समस्त व्यय मुख्य कार्यालय द्वारा चुकाये जाते हैं। शाखा को बहुत कम उधार विक्रय की आज्ञा है। निम्नलिखित विवरण से स्कन्ध एवं देनदार पद्धति से शाखा का लाभ ज्ञात कीजिए :

|                                  | ₹        |
|----------------------------------|----------|
| शाखा के देनदार (1 अप्रैल, 2019)  | 3,750    |
| शाखा का स्कन्ध (1 अप्रैल, 2019)  | 30,000   |
| शाखा को भेजी गई वस्तु            | 2,00,000 |
| मुख्या कार्यालय को भेजी गई रोकड़ | 3,10,000 |
| शाखा का किराया तथा कर            | 8,000    |
| शाखा के अन्य व्यय                | 12,000   |
| शाखा के देनदार (31 मार्च, 2020)  | 4,000    |
| शाखा का स्कन्ध (31 मार्च, 2020)  | 37,000   |

A rice mill at Bilaspur has a selling branch at Delhi and charges all goods sent to the branch at cost +  $33\frac{1}{3}\%$ . It is arranged that all cash received by the branch is to be paid

(B-20) P. T. O.

[ 16 ]

D-132

daily to the Head Office. All branch expenses are to be paid by the Head Office. The branch is to effect very little credit sales. From the following particulars, find out branch profit by the stock and debtors system :

|   | ₹        |
|---|----------|
| Debtors of Branch (On 1st April, 2019)  | 3,750    |
| Stock at branch (On 1st April, 2019)    | 30,000   |
| Goods supplied to branch                | 2,00,000 |
| Cash sent to Head Office                | 3,10,000 |
| Branch rent and taxes                   | 8,000    |
| Other expenses at branch                | 12,000   |
| Debtors of Branch (On 31st March, 2020) | 4,000    |
| Stock at Branch (On 31st March, 2020)   | 37,000   |

3. निखिल ने निम्नांकित सूचनाओं के आधार पर न्यायालय में दिवालिया हेतु आवेदन किया। अवस्था-विवरण एवं हीनता लेखा बताइये :
- (i) पूँजी ₹ 40,000  
व्यापारिक हानि ₹ 35,000  
पूँजी पर ब्याज ₹ 7,500  
गैर-व्यापारिक लाभ ₹ 9,500  
गैर-व्यापारिक हानि ₹ 4,500
- (ii) उत्तमर्ण ₹ 40,000  
देय विपत्र ₹ 10,000  
बैंक अधिविकर्ष ₹ 5,000

(B-20)



[ 17 ]

D-132

|   |                        |
|---|------------------------|
| (iii) अधिकोष ऋण ₹ 30,000 (₹ 35,000 के यंत्र की प्रतिभूति पर)<br>तथा अंशतः प्रतिभूति उत्तमर्ण (यंत्र के अतिरेक पर द्वितीय प्राधिकार) | ₹ 15,000               |
| (iv) भवन  | ₹ 25,000 (40% रोकीकृत) |
| उपस्कर  | ₹ 12,500 (60% रोकीकृत) |
| प्राप्त विपत्र  | ₹ 10,000 (सम मूल्य)    |
| विनियोग   | ₹ 30,000 (50% रोकीकृत) |
| रोकड़   | ₹ 8,000                |
| (v) विविध अधमर्ण : शुद्ध  | ₹ 12,000               |
| संदिग्ध   | ₹ 10,000 (1/5 वसूली)   |
| अधिमान्य उत्तमर्ण   | ₹ 25,000               |

Nikhil presented the following information in the Court an application for insolvency. Prepare Statement of Affairs and Deficiency Account :

|   |          |
|---|----------|
| (i) Capital   | ₹ 40,000 |
| Trading Loss  | ₹ 35,000 |
| Interest on Capital   | ₹ 7,500  |
| Non-trading Profit  | ₹ 9,500  |
| Non-trading Loss  | ₹ 4,500  |
| (ii) Creditors  | ₹ 40,000 |
| Bills Payable   | ₹ 10,000 |
| Bank Overdraft  | ₹ 5,000  |
| (iii) Bank loan ₹ 30,000 (Mortgage a machine of ₹ 35,000)<br>and Party secured creditors (Second mortgage<br>on surplus of machine) | ₹ 15,000 |

(B-20) P. T. O.

[ 18 ]

D-132

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| (iv) Building             | ₹ 25,000 (40% Realized)  |
| Furniture                 | ₹ 12,500 (60% Realized)  |
| Bills receivable          | ₹ 10,000 (At par)        |
| Investment                | ₹ 30,000 (50% Realized)  |
| Cash                      | ₹ 8,000                  |
| (v) Sundry Debtors : Good | ₹ 12,500                 |
| Doubtful                  | ₹ 10,000 (1/5 recovered) |
| Preferential creditors    | ₹ 25,000                 |

अथवा

(Or)

मि. राजेश जो दिवालिया है, 31 दिसम्बर, 2019 को निम्नलिखित सूचनाएँ आपको देता है :

|  | ₹        |
|--|----------|
| पूँजी                                    | 1,00,000 |
| आहरण                                     | 63,600   |
| शुद्ध हानि                               | 79,000   |
| रोकड़                                    | 400      |
| फर्नीचर (अनुमानित प्राप्य राशि ₹ 10,500) | 17,500   |
| मशीनरी (अनुमानित प्राप्त राशि ₹ 12,000)  | 29,500   |
| पूर्वाधिकार लेनदार                       | 26,000   |
| विविध लेनदार                             | 64,000   |

मि. राजेश का अवस्था विवरण एवं हीनता लेखा बनाइये।

(B-20)

Mr. Rajesh is insolvent. He supplies to you the following information as on 31st Dec., 2019 :

|  | ₹        |
|--|----------|
| Capital                                    | 1,00,000 |
| Drawing                                    | 63,600   |
| Net less                                   | 79,000   |
| Cash                                       | 400      |
| Furniture (Estimated to realized ₹ 10,500) | 17,500   |
| Machinery (Estimated to realized ₹ 12,000) | 29,500   |
| Preferential Creditors                     | 26,000   |
| Sundry Creditors                           | 64,000   |

Prepare Statement of Affair and Deficiency Account of Mr. Rajesh.

4. सामाजिक लेखांकन से आप क्या समझते हैं ? इसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

What do you understand by Social Accounting ? Discuss its main objectives.

अथवा

(Or)

पट्टा खाता के उद्देश्यों एवं महत्व को समझाइए।

Explain the importance and objectives of Lease Account.